

[This question paper contains 8 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 883

I

Unique Paper Code : 2413090007

Name of the Paper : BUSINESS TAX PROCEDURE AND
MANAGEMENT

Name of the Course : B.Com. UGCF - Discipline Specific Elective
Course

Semester : V

Duration : 3 Hours

Maximum Marks : 90

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. Attempt all question by selecting two parts from each question.
3. Part of the questions to be attempted together.
4. If question papers has Part - A / B / C (write appropriate direction).
5. All questions carry equal marks.
6. Use of Calculator not allowed. Not applicable.
7. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।
2. प्रत्येक प्रश्न से दो भाग चुनते हुए सभी प्रश्न कीजिए।
3. प्रश्नों के भाग को एक साथ कीजिए।
4. यदि प्रश्नपत्र में भाग-क/ख/ग है (उचित निर्देश लिखें)।
5. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
6. कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति नहीं है। मान्य नहीं।
7. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

P.T.O.

1. (a) Explain the concept of Tax Information Network (TIN). What are the services provided by the TIN-Facilitation Centres? (9)
- (b) Is the transfer of VDAs considered a taxable event? Explain When and How tax is deductible from payment on Transfer of Virtual Digital Asset as per the provision of Section 145? (9)

OR

- (a) (i) Describe the requirements of filing an updated return under the Income Tax Act, 1961. (4)
 - (ii) Discuss the procedure for obtaining a Tax Clearance Certificate (TCC) under the Income Tax Act, 1961. (5)
 - (b) State the provisions relating to deduction of tax at source. Explain in detail the consequences for failure to deduct tax at source? (9)
2. (a) State the hierarchy of Income Tax authorities in India as per the Income Tax Act, 1961. Explain the powers of Central Board of Direct Taxes (CBDT). (9)
 - (b) Outline the provisions for granting immunity from prosecution under Section 278AB of the Income Tax Act. (9)

OR

- (a) State the types of returns that can be filed under the Income Tax Act. Briefly explain the provisions relating to ITR 2. (4+5)

- (b) A penalty can be imposed under section 270A of the Income Tax Act for underreporting or Misreporting of Income. What do you mean by under-reporting and mis-reporting of income? State any five cases of each one of them. (9)
3. (a) What is a settlement commission? Explain the procedure of making an application for the settlement of the case. (9)
- (b) Mrs. Ankita aged 45 years is a resident of India has assessed his estimated tax liability for the A.Y. 2025-2026 as 10,50,000 from the different heads of Income under the Income Tax. Compute the amount of Advance tax payable by her on each instalment. State the Due dates on which she is required to pay installments of advance tax? (9)

OR

- (a) Who can authorise a search u/s 132? Under what circumstances the order for search can be passed? (9)
- (b) Mr. Joseph, a resident individual in India, has a tax liability of Rs. 10,50,000 for the Assessment Year 2025-26. What is the amount and the due date for the payment of advance tax. He failed to pay advance tax Installment. Briefly discuss the provisions regarding payment of interest for default in payment of advance tax under section 234B Income tax Act, 1961. (3+3+3)
4. (a) Mrs. Geetika selected for participating in Kaun Banega Crorepati (KBC) show. She played well and won a cash prize of 4,50,000. At what rate TDS will be Deducted and also calculate the amount of prize she will actually receive from the organizers? (3+3)

- (b) What are the modes of Furnishing Quarterly returns of TDS and TCS. Discuss in detail?

(6)

- (c) Describe the various strategies available to a Tax Recovery Officer for recovering unpaid taxes from defaulting assessee.

(6)

OR

- (a) State the due dates of filing the TDS and TCS returns under section of the Income tax Act, 1961?

(6)

- (b) Explain the purpose and eligibility criteria for submitting Form 15G and Form 15H under the Income-tax Act, 1961.

(6)

- (c) Briefly discuss the provisions regarding payment of interest under section 234A at the time of assessment of income?

(6)

5. (a) Discuss the limitations placed on the power of assessing officer with regard to search and seizure to prevent abuse.

(9)

- (b) What are the provision for prosecution for willful attempt to evade tax under different provisions of the Income Tax Act.

(9)

OR

- (a) Discuss various provisions of Scrutiny Assessment u/s 143(3)? Briefly Explain.

(9)

(b) Write short notes on the following :

(4.5×2)

(i) Search u/s 132.

(ii) Self-Assessment u/s 140A.

1. (क) कर सूचना नेटवर्क (टीआईएन) की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। टीआईएन-सुविधा केंद्रों द्वारा कौन-सी सेवाएँ प्रदान की जाती हैं? (9)

(ख) क्या वीडिए का हस्तांतरण कर योग्य घटना माना जाता है? धारा 194एस के प्रावधान के अनुसार वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण पर भुगतान से कर कब और कैसे काटा जाता है, इसकी व्याख्या कीजिए? (9)

या

(क) (i) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अद्यतन रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। (4)

(ii) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट (टीसीसी) प्राप्त करने की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। (5)

(ख) स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित प्रावधानों बताइये। स्रोत पर कर कटौती करने में विफलता के परिणाम विस्तार से समझाइये? (9)

2. (क) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार भारत में आयकर अधिकारियों के पदानुक्रम को बताएं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की शक्तियों की व्याख्या कीजिए। (9)

(ख) आयकर अधिनियम की धारा 278AB के तहत अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान करने के प्रावधानों की रूपरेखा बताइए। (9)

या

(क) आयकर अधिनियम के तहत दाखिल किए जा सकने वाले रिटर्न के प्रकार बताइए। आईटीआर 2 से संबंधित प्रावधानों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। (4+5)

(ख) आय की कम रिपोर्टिंग या गलत रिपोर्टिंग के लिए आयकर अधिनियम की धारा 270A के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है। आय की कम रिपोर्टिंग और गलत रिपोर्टिंग से आपका क्या तात्पर्य है? उनमें से प्रत्येक के कोई पाँच मामले बताइए।

(9)

3. (क) सेटलमेंट कमीशन क्या है? मामले के सेटलमेंट के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बताइए।

(9)

(ख) श्रीमती अंकिता, आयु 45 वर्ष, भारत की निवासी हैं और उन्होंने आयकर के तहत आय के विभिन्न शीर्षों से वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए अपनी अनुमानित कर देयता ₹10,50,000 आंकी है। प्रत्येक किस्त पर उनके द्वारा देय अग्रिम कर की राशि की गणना कीजिए। अग्रिम कर की किस्तों का भुगतान करने की तिथि बताएं?

(9)

या

(क) धारा 132 के तहत तलाशी को कौन अधिकृत कर सकता है? किन परिस्थितियों में तलाशी का आदेश पारित किया जा सकता है?

(9)

(ख) श्री जोसेफ, भारत में निवासी व्यक्ति हैं, उन पर कर निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए 10,50,000 रुपये की कर देयता है। अग्रिम कर के भुगतान की राशि और देय तिथि क्या है। वे अग्रिम कर की किस्तों का भुगतान करने में विफल रहे। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234बी के तहत अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिए ब्याज के भुगतान के प्रावधानों पर संक्षेप में चर्चा कीजिए।

(3+3+3)

4. (क) श्रीमती गीतिका को कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) शो में भाग लेने के लिए चुना गया। उन्होंने अच्छा खेला और ₹4,50,000 का नकद पुरस्कार जीता। किस दर से टीडीएस काटा जाएगा और आयोजकों से उन्हें वास्तव में मिलने वाले पुरस्कार की राशि की भी गणना कीजिए?

(3+3)

- (ख) टीडीएस और टीसीएस के त्रैमासिक रिटर्न प्रस्तुत करने के तरीके क्या हैं। विस्तार से चर्चा कीजिए?

(6)

- (ग) चूककर्ता करदाता से असदस्त कर वसूलने के लिए कर वसूली अधिकारी के पास उपलब्ध विभिन्न रणनीतियों का वर्णन कीजिए।

(6)

अथवा

- (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा के तहत टीडीएस और टीसीएस रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथियां बताएं?

(6)

- (ख) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत फॉर्म 15जी और फॉर्म 15एच जमा करने के उद्देश्य और पात्रता मानदंड की व्याख्या कीजिए।

(6)

- (ग) आय के आकलन के समय धारा 234ए के तहत ब्याज के भुगतान के संबंध में प्रावधानों पर संक्षेप में चर्चा कीजिए?

(6)

5. (क) दुरुपयोग को रोकने के लिए तलाशी और जब्ती के संबंध में कर निर्धारण अधिकारी की शक्ति पर लगाई गई सीमाओं पर चर्चा कीजिए।

(9)

- (ख) आयकर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत कर चोरी के जानबूझकर प्रयास के लिए अभियोजन के क्या प्रावधान हैं।

(9)

अथवा

(क) धारा 143(3) के तहत संवीक्षा मूल्यांकन के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा कीजिए? संक्षेप में समझाइये। (9)

(ख) निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : (4.5×2)

(i) धारा 132 के तहत तलाशी।

(ii) धारा 140A के तहत स्व-मूल्यांकन।